CRACKING THE WHIP

Why Sebi is tightening the regulations for public issues of SMEs

DEVANGSHU DATTA

New Delhi, 9 December

n December 2, the Securities and Exchange Board of India (Sebi) cancelled the initial public offer of Trafiksol ITS Technologies, a company that falls in the category of an SME - a small and medium enterprise. The stock market regulator asked it to refund money to investors.

This is one of several SME IPOs to run into trouble with the regulator in the recent past. Trafiksol ITS is a Noida-based company which provides intelligent transportation systems and automation solutions for traffic and toll management. It filed its Draft Red Herring Prospectus on May 31, 2024 for an IPO to be listed on the Bombay Stock Exchange's SME Platform.

The IPO offered 6.41 million new equity shares at a price of between ₹66 and ₹70 a share. The IPO was open between September 10 to 12 and was oversubscribed 345.65 times with listing scheduled for September 17.

Sebi acted on a complaint alleging that the objects of the issue included the purchase of software of ₹17.70 crore from a vendor with questionable financials, concluded after an investigation that the vendor was a 'shell entity'.

In another case, C2C Advanced Systems, an IPO on the National Stock Exchange's Emerge platform, opened November 22-26 at a price band of ₹214-226, and saw 125-time subscription for the 2.91 million-share issue. The listing on November 29 was deferred due to complaints of discrepancies in financial statements. The NSE consulted with Sebi and told the company to provide subscribers a withdrawal option and appointed an independent auditor for inspection of the accounts.

About 370,000 applications were withdrawn. But after the audit, Sebi allowed the listing on December 2. Additionally, the regulator asked the NSE to set up monitoring to oversee the utilisation of funds raised through

In yet another case, Rosmerta Digital Services Ltd postponed an IPO heduled to raise ₹2 November 18 and 21. Though the company issued a statement about pulling back due to "adverse market conditions", it is said Sebi asked for a

As on October 15, 12 listings were suspended on NSE Emerge and there were no trades in another 15 companies in the last 30 days. Similarly, the BSE SME platform had 28 suspensions and in 35 companies no trade had been executed in the last month



withdrawal after receiving complaints alleging problems with the DRHP and allegations of market manipulation by relatives of the promoters.

SME IPO is a red-hot market segment. Many of these floats routinely see 100-time subscription and massive gains upon listing. However, Sebi has started tightening regulations after many complaints about sharp practices.

As of October 15, 12 listings were suspended on NSE Emerge and no trades in another 15 companies in the last 30 days. Similarly, the BSE SME platform had 28 suspensions, and in 35 companies no trade had been executed in the last month. If a stock goes illiquid, actually booking a profit (or loss) becomes difficult.

Governance lapses

SMEs are typically companies with a high concentration of shareholding among a few promoters. There is a limited presence of private equity and other sophisticated investors who can flag lapses in corporate governance.

The concept of SME IPOs has been around for a decade, but it really took off in the last two years. These allow SMEs to raise money and list on the NSE-Emerge and BSE-SME platforms (not on the main board.) The post-issue paid-up capital of the SME



CATCHING ON

- 850 SMEs are listed on the platforms of BSE and NSE
- Their combined market capitalisation is more than ₹ 2 trillion
- Since the SME IPO concept was launched, around 1,150 companies have listed on the NSE and BSE platforms
- 300 of these have graduated to the main board (as on October 15, 2024)
- In calendar year 2022, 109 SME IPOs raised ₹1,980 cr
- In Calendar 2023, 182 SME IPOs raised
- In Calendar 2024 (until Dec 11), 228 SME issues have raised ₹8,859 cr

been 61 SME IPOs and 29 of these have been subscribed more than 100 times, many of them more than 200 times

■ Since September 2024, there have

WHAT SEBI WANTS

- Minimum SME IPO application value doubled to ₹2 lakh
- An increase in the minimum number of allottees to 200 from the current 50
- Restrictions on Offer For Sale to 20% of the issue size
- Monitoring agencies to oversee IPO fund utilisation in line with an IPO's stated objectives
- Lock-in on minimum promoter contribution be extended to five years

must not exceed ₹25 crore, while eligibility requirements for SME IPO company directors, promoters, etc, are much the same as in a regular IPO.

Sebi released a consultation paper where it cited problems with Circular Transactions, meaning where companies inflate revenues through transactions with related entities to mislead investors. It cited problems with high-risk related party transactions (RPTs). The regulator says half of listed SME entities have engaged in RPTs of values exceeding 10 per cent of their turnover and a fifth had RPTs exceeding 50 per cent of turnover. The paper cited diversion of IPO proceeds to related parties, connected parties, shell companies, etc.

Sebi has asked for the minimum SME IPO application value to be doubled to ₹2 lakh, an increase in the minimum number of allottees to 200 from the current 50, restrictions on Offer For Sale (OFS) to 20 per cent of the issue size. (In an OFS, promoters sell stakes they own, and the proceeds come to them, not to the company.)

Sebi also wants monitoring agencies to oversee IPO fund utilisation in line with an IPO's stated objectives, and has suggested the lockin on minimum promoter contribution (MPC) be extended to five years. (In MPC, the promoters have to continue to own at least 20 per cent stake after an IPO. There will also be a focus on RPTs to prevent fund diversion.

Rising popularity

SME IPO, as a concept, is fantastic for small companies. It raises cash at far lower initial cost than the interest payable on equivalent debt. Moreover, the company is under no obligation to pay a dividend, unlike with its legal obligation to service debt.

Tapping the equity market is therefore a great way to raise capital cheaply. The arithmetic of a low base allows a small business to grow very quickly, so there is a fundamental justification for investors to be interested. But the due diligence for an SME IPO is not as onerous as for a main board IPO Crucially the DRHP and $other \, documents \, for \, SME \, IPOs \, are \,$ processed by the stock exchanges and not by Sebi.

There are around 850 SMEs currently listed on the two platforms, with a combined market capitalisation of over₹2 trillion. Since the SME IPO concept was launched, around 1150 companies have listed on the NSE and BSE platforms and some 300 of these SMEs have since graduated to the main board (as on October 15, 2024).

In Calendar year 2022, 109 SME IPOs raised ₹1,980 crore. In Calendar year 2023, 182 SME IPOs raised ₹4,967 crore while in Calendar 2024 (until Dec 11), 228 SME issues raised ₹8,859 crore. In FY25 (April 1-December 11, 2024), 175 IPOs have raised around ₹7,109 crore compared to 205 issues raising ₹6,364 crore in FY24.

Clearly, the concept has become more popular in the last two years. The investor response has been truly extraordinary. Since September 2024, there have been 61 SME IPOs and 29 of these have received subscription of more than 100 times. Many have received more than 200—times subscription.

There is no greenshoe option. But oversubscription of this order guarantees that the issue hits the top end of the price band and it usually means listing at big premiums. Quite a few SME IPOs have gained more than 100 per cent very quickly after listing.

Rajesh Power, which listed on December 2, has gained 109 per cent since. C2C has gained 99 per cent after being cleared to list on December 3. Neelam Linens has risen by 160 per cent, Danish Power by 168 per cent, and Sahasra Electronics by 136 per cent.

Lottery tickets

Data tells us why SME IPOs are popular. An allotment is almost like a winning lottery ticket, with the possibility of instantaneous, massive capital gains. You don't even have opportunity costs unless you receive an allotment.

Earlier, an IPO application meant cash being transferred out of your account, and waiting for a refund if there was no allotment. Now, the



money stays in your account earning interest via the ASBA (Application Supported by Blocked Amount) interface until such time as an

so long as the stock market continues to rule high, most retail investors will continue to consider SME IPOs a very attractive proposition.

If the market does go into correction mode, there will be less interest and the liquidity may dry up further. But until and unless there's a broad bear market, the momentum in the SME IPO segment is likely to



by 4.00 p.m.

Place: Mumbai

850 Mysore Silk

1- Bid No.GEM/2024/B/5670501 RFP for

"Supply, Implementation, Migration and

Maintenance of UPI Solution (Application & Software) under CAPEX Model" Deadline for Tender submission on GeM portal is 16/01/2025 up to 15:00 hrs. 2- Bid No. GEM/2024/B/5672479 RFP for Supply, Implementation, Migration and Maintenance of ATM Switch Solution, CMS Solution and ATM Monitoring

solution under CAPEX Model Deadline for Tender submission on GeM portal is 14/01/2025 up to 15:00 hrs. For details, please visit our website:

BOI

Head Office: Star House, C-5, "G" Block, Bandra-Kurla Complex,

Bandra (East), Mumbai – 400 051.

TENDER NOTICE

Bank of India invites request for proposal (RFP) for Selection of Assurance Provider (AP) for BRSR Core for the FY 2024-25.

Last Date and Time of Submission of Bid is 30th December, 2024

Details are available on Bank's website: www.bankofindia.co.in under

"Addendum", if any, shall be published on Bank's Website: www.bankofindia.co.in under Tender section. Bidders must refer the

CORPORATION LTD.

(A Government of Karnataka Enterprise)

3° & 4° Floors, Public Utility Building, M.G. Road,
Bengaluru - 560 001. Ph: 080-25586550 / 25586402

E-mail: info@ksicsilk.com

Tender for Supply of Gold Lace

(Through KPP Portal only)

Tender is invited through KPP-Portal from reputed

Manufacturers for supply of 33,900 marcs of Gold Lace for KSIC

Tender Documents, details of the Notification, schedule terms &

conditions can be downloaded from https://kppp.karnataka.

gov.in The Pre-bid meeting to be held on 30.12.2024 at

3.30 p.m. Last date and time for uploading the tender along with

EMD of **Rs. 5,00,000/-** through KPP-Portal is **10.02.2025 upto**

3.00 P.M and the Technical bids will be opened on 12.02.2025 at

03.30 P.M. Further details can be had from the office of the

Undersigned during working hours or KPP-Portal helpdesk

Silk Weaving Factory, Mysuru for a period of one year.

KARNATAKA SILK INDUSTRIES

Tender section with Reference No. 4921-09122024.

same before final submission of the proposal

No. KSIC/PD/GL-71/01/2024-25

Chief Manager-Admin

Company Secretary

Date: 07.12.2024

Sd/-GENERAL MANAGER (Proc)

INSILCO LIMITED

allotment - that is up from 4 times in

Investors run some risks, of course,

including lack of liquidity, quite apart

from outright fraud or malpractice. But

FY22 and 46 times in FY23.

Under Voluntary Liquidation wef 25.06.2021) CIN: L34102UP1988PLC010141 Regd. Office - B-23, Sector 63, Noida, Uttar Pradesh - 201301, Phone: 09837923893, Email id: insilco2@gmail.com, Website: www.insilcoindia.com

NOTICE OF THE 4[™] CONTRIBUTORIES MEETING OF INSILCO LIMITED (UNDER VOLUNTARY LIQUIDATION)

Pursuant to Regulation 37(2)(a) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process), Regulations, 2017, the 4° Contributories Meeting ("Meeting") of Insilco Limited ("Company" will be convened on Friday, 20° December 2024 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to present a Status Report(s) indicating progress in uidation of the Company which includes

settlement of list of stakeholders.

details of any assets that remains to be sold and realized, distribution made to the stakeholders, distribution of unsold assets made to the stakeholders, distribution of unsold assets made to the stakeholders, developments in any material litigation, by or against the Company, filing of, and developments in applications for avoidance of transactions in accordance with Chapter II of Part II of the Code.

the reasons for not completing the process within stipulated time period and the additional time require

the members are informed that:

The Notice of the Contributories Meeting has been sent by email to those Members/Contributories whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants(s). The electronic dispatch of Notice of the Contributories Meeting has been completed on 9" December 2024. The cut-off date for determining the Members eligible to attend the Meeting is 13th December 2024

Any person becoming a member of the Company after the dispatch of Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 13th December 2024 may obtain the User ID and password by referring to the login instructions attached to this Notice. Alternatively, member may send request providing the email address, DP ID / Client ID, mobil number, number of shares held and self-attested PAN copy via email to insilco2@gmail.com for

obtaining the Notice of Meeting. The Notice of the Contributories Meeting is also available on the website of the Company www.insilcoindia.com, and website of BSE Limited at www.bseindia.com. Also, on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Members, who have not received the notice due to change/ non-registration of their e-mail address with the Company/ RTA/ Depository Participants, they may request for the Notice, by sending ar email at Company's email address at insilco2@gmail.com for obtaining the Notice of the Meeting Post receipt of such request and verification of records of the member, the member would be Post receipt of such request and verification or records of the member, the member would be provided soft copy of the Notice. It is clarified that for registration of email address, the members are however requested to follow due procedure for registering their email address with the Company, RTA in respect of physical holdings and with the Depository Participants in respect of electronic holdings. Those Members, who have already registered their email addresses are requested to keep their email addresses validated with their Depository Participants/ RTA/ Company to enable servicing of notices/ documents/Annual Reports electronically to their email address.

The Members who have not received any communication regarding this Meeting for any reason whatsoever, and are eligible to attend are also entitled to attend and may obtain the User ID and password or instructions for remote login by contacting at the Company's email address a insilco2@gmail.com or evoting@nsdl.com.

Members who would like to express their views/have questions can send their questions in advance from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number, email address, mobile number at Company's email address at insilco2@gmail.com at least 2 days in advance before the start of the meeting. Such questions shall be replied by the compar

Melhors, who would like to express their viewsrask questions during the intelling may register themselves as a speaker by sending their request mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number, email address, mobile number at the Company's email address at insilco2@gmail.com at least 48 hours in advance before the start of the meeting i.e. by 18° December 2024 by 11.00 a.m. (IST). Such questions shall be taken up during the meeting and replied by the Company suitably. The Company reserves the right to restrict the number of questions and number of speakers, as appropriate for smooth conduct of the meeting. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e

Voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.com or contact Ms Sarita Mote. Assistant Manager, National Securities Depository Limited, Trade Word, 'A' Wing, 4' Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, who will also address the grievances connected with joining by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at the Company's email address at insilco2@gmail.com.

(Under Voluntary Liquidation

Place : Noida, UP

ITI Asset Management Limited Investment Manager for ITI Mutual Fund

080-46010000, 080-68948777.

DIPR/CP/JA/3675/2024-25

Place: Mumbai

Date: December 09, 2024

Registered Office: ITI House, Building No.36, Dr. R. K. Shirodkar Road, Parel, Mumbai - 400 012, Maharashtra

Toll Free No: 1800 266 8603 E:mfassist@itiorg.com W:www.itiamc.com

CIN: U67100MH2008PLC177677



NOTICE No. 59/2024

Notice to the Investors/Unit holders of ITI Balanced Advantage Fund (the Scheme)

NOTICE is hereby given that ITI Mutual Fund Trustee Private Limited, Trustee to ITI Mutual Fund has approved the following distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal Option ("IDCW Option") of the Scheme, subject to availability of distributable surplus on the record date i.e. on December 12, 2024*:

Name of the Schemes/Plans	Quantum of IDCW (₹ Per unit) (Face value of ₹ 10/- each) ^{\$#}	NAV as on December 06, 2024 (₹ Per unit)	
ITI Balanced Advantage Fund			
Regular Plan- IDCW Option	0.10	13.2685	
Direct Plan- IDCW Option	0.10	14.7593	

SThe distribution will be subject to the availability of distributable surplus and maybe lower depending upon the extent of distributable

surplus available on the record date under the IDCW option of the Scheme. #Subject to deduction of applicable statutory levy, if any

*or the immediately following Business Day, if that day is a Non – Business Day.

The distribution with respect to IDCW will be done to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the IDCW option of the Scheme, at the close of business hours on the record date.

It should be noted that pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW option of the Scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

For ITI Asset Management Limited

(Investment Manager for ITI Mutual Fund)

Authorised Signatory

Unit holders are requested to update their PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details with AMC and are also advised to link their PAN with Aadhaar Number. Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Mutual Fund as well as check for any unclaimed redemptions or Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') payments.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

ऐक्सिस बैंक लि0 कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटरः प्रथम तल, जी–4/5 बी सेंटर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ उ०प्र0— 226010 रजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006 जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐविसस बैंक लिंo के प्राधिकारी, ने सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्ते वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित कियाँ जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष . रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा साक्धान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टेगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी / सह-ऋणी / बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

खातेदार / गारन्टरों का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस के अनु सार बकाया राशि मांग सूचना की तिथि
९५ पता		कब्जे की तिथि
श्री अजीत कुमार (ऋणी) पुत्र श्री चन्द्र भान, पता—1. 63 मऊ मुरादाबाद उठप्र0—244001, पता—2. बिलसुरी बुलन्दशहर उठप्र0—203205,	8 खसरा न0 777ए, 777बी स्थित मऊ (नव विकसित आबादी दक्षिणी सहारनपुर रेलवे लाइन) मुरादाबाद,	
श्रीमती कुसुम (सह—ऋणी) पत्नी श्री अजीत	जा भीनानी गर्न गर्मा जानकी गर्म जान	23.09.2024
कुमार, पता—बिलसुरी बुलंदशहर सिकन्दराबाद उ०प्र0—203205	पश्चिम—रोड़ 15 फीट चौड़ा, उत्तर—शरीफ बली की सम्पत्ति, दक्षिण—रोड़ 13 फीट चौड़ा।	
दिनांकः 10.12.2024	प्राधिकृत अ	धिकारी, एक्सिस बैंक लि0

अधिग्रहण सुचना

DCB BANK

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रव अधिनियम २००२ (२००२ का 54) के अंतर्गत और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों र प्रयोगान्तर्गत, एक माँग सूचना निम्नांकित तिथियों पर निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं (उधारकर्ता को तथा सह—उधारकर्ता को) को निम्न तालिका में विवरणितानुसा सूचना में अंकित राशि का राशि पर नियत भावी ब्याज के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिमुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता तथा सह–उधारकर्ता राषि का प्रतिमुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदृद्वारा उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता तथा जनसाधारण को सूचित किया जात है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का प्रतिभति हित नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धार

(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **06-12-2024** को, अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में साक्धान किया जाता है कि संपत्ति (अचल संपत्ति का विवरण) का लेन-देर ा करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन—देन, यहां निम्न तालिका में अंकितानुसार संबंधित राशि हेतु डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। उचारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओ

माँग सूचना तिथि	03-09-2021
उधारकर्ता(ओं) तथा सह—उधारकर्ता(ओं) के नाम	रविंदर कुमार तथा राज रानी
कुल बकाया राशि	▼. 12,46,254.81 / — (रुपये बारह लाख छियालिस हजार दो सौ चौव्वन और इक्यासी पैसे मात्र)
	21 अगस्त 2024 के अनुसार
अचल संपत्ति का विवरण	भूमि मापन 19.25 मारला, ग्राम मुरादगढ़, तहसील इंदरी जनपद करनाल, हरियाणा— 132041 में स्थित मकान (प्रतिभूत परिसंपत्तियाँ)।
दिनाँक : 10–12–2024 स्थान : करनाल, हरियाणा	डरता./— प्राप्तकृत अधिकारी डीसीबी बैंक तिमिटेड



पंजीकृत कार्यालय - 5वीं मंजिल, बड़ौदा सन टॉवर, सी - 34, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई 400 051

RFP for Implementation & Commissioning with Licensing of Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP

बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड (बीजीएसएसएल), 27वीं मंजिल, गिफ्ट वन टावर, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात - 382355 माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल ईआरपी के लाइसेंस के साथ कार्यान्वयन और कमीशनिंग के लिए बिजानस् सद्देव इंजारम् अ राष्ट्रियस्य स्ट्रियस्य स्ट्रियस्य स्ट्रियस्य निविदाएं आमंत्रित करता है। निविदा प्रपत्र का विवरण BGSSL वेबसाइट: www.bgss.in पर 'निविदा अनुभाग' के

अंतर्गत उपलब्ध है। "परिशिष्ट" यदि कोई हो, केवल BGSSL वेबसाइट् पर जारी किया जाएगा और बोली लगाने "परिशिष्ट" यदि कोई हो, केवल BGSSL वेबसाइट् पर जारी किया जाएगा और बोली लगाने

उपरोक्त निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 30/12/2024 को दोपहर 3:00 बजे तक है।

जगह- गांधीनगर तारीख: 10/12/2024

इनसिल्को लिमिटेड

दिनांक 25-06-2021 के प्रभाव के तहत स्वैच्छिक परिसमापन) तीआईएन : L34102UP1988PLC010141

पंजी. कार्यालय बी—23, सैक्टर—63, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 फोन : 09837923893, ईमेल आईडी : insiloo2@gmail.com, वेबसाइट : www.insilcoindia.com

पोस्टल बैलेट नोटिस

इंसिल्को लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 110, 108 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियमावली') के नियम 22 और नियम 20, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकतारों) विनियम, 2015 ('सेषी सूचीबद्धता विनियम) के विनियम

्रियाच्या सार्वाच्या कार्याच्या कार्याच्याता जारी सामान्य बैठको पर सचिवीय मानक **(सचिवीय मानक)**, क्षेत्र के स्वीत् से अप आरोपिय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठको पर सचिवीय मानक **(सचिवीय मानक)**, जो कोई अन्य लागू कानून, नियम और विनियम (इसमें कोई वैघानिक संशोधन या पुनः अधिनयमन शामिल है, जो

वर्तमान में लाग है), 8 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 के सहपटित, 13 अप्रैल 2020 वे आदेश संख्या 17 / 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्नों के अनुपालन में, जिनमें सबसे ताज परिपत्न 19 सितंबर 2024 को कॉपिरेट मामलों के मंत्रालय **(एमसीए**) द्वारा जारी सामान्य परिपत्न संख्य

09 / 2024 है (जिसे एतदद्वारा सामृहिक रूप से **"एमसीए परिपत्र"** कहा जाएगा), कंपनी ने सोमवार, 9 दिसंबर

09/2024 ह (जार पुरक्षित सामुक्त के जर स्पाना प्राप्त अर्थ जार जार जार जा जा ना ना ना ना ना है। परावर 2024 को कंपनी के सभी सदस्यों के पोस्टल बैंजेंट के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों व्याख्यात्मक विवरण के साथ उन सभी को जिन्होंने पहले से ही डिपॉजिटरी और कंपनी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत कर लिया

र, अर्थय ब्रुविद्यानिक नाव्यन से नाव्यन **(स्ताट क्याटन)** मोटिस में निहित नद पर साधारण संकट्य के माध्यम से कंपनी के सदस्यों का **कट—ऑफ तिथि** यानि मंगलवार 3 दिसंबर 2024 तक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रेषित कर दी गई है।

निरेशक मंडल ने मैसर्स नित्यानंद सिंह एंड कंपनी, प्रैकिटसिंग कंपनी सेकेंटरी, (एफसीएस नंबर 2668 और सीपी नंबर 2388) के प्रोपराइटर श्री नित्यानंद सिंह को 19 नवंबर 2024 को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई—वोटिंग

सदस्यों को हमेल द्वारा भेजा गया है. जिनके हमेल पते कंपनी / हिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकत हैं

रासरेना को दोना प्राप्त गर्भा गया है। हाजाय देना वस प्रकार । हाजाविद्य होता होते प्रदानाचार के याचाहर है सदस्यों को पोस्टल बैलेट की सूचना और उसके व्याख्यात्मक विवरण का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 9 दिसंबर 2024 के पूरा हो गया है। एमसीए सर्कुलर और सेबी सर्कुलर के माध्यम से सदस्यों को पोस्टल बैलेट की सूचना की

पोस्टल बैलेट के नोटिस में निर्धारित विशेष व्यवसाय केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किये जाएंगे।

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 3 दिसंब

डीमैटरियलाइज्ड मोड फिजिकल मोड में शेयर धारक सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पत

पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए रिमोट से मतदान करने का तरीका पोस्टल बैलेट के नोटिस में दिया

पोस्टल बैलेट के नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.insilcoindia.com और बीएसई लिमिटेड की

वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध हैं। पोस्टल बैलेट का नोटिस एनएसडीएल की वेबसाइट

भौतिक रूप में शेयर धारक सदस्य. जिनके ईमेल पते कंपनी के पास पंजीकत नहीं हैं. वे हस्ताक्षरित अनरोध

पत्र की रुकेन कोषी भेजकर अपना ईमेल पता पंजीकृत करा सकते हैं, जिसमें आपका फोलियों नंबर, पूरा पता, पंजीकृत किए जाने वाले ईमेल पते के साथ—साथ पैनकार्ड की रुकेन की गई स्य—सत्यापित प्रति और सदस्य के पंजीकृत पते का समर्थन करने वाला कोई भी दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक

स्टेटमेंट, आधार काड़ी कंपनी के ईमेल पत्ते insilco2@gmail.com पर ईमेल द्वारा भेज दें। डीमेंट रूप में शेयरधारक सदस्य अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागी के साथ अपना ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं।

. सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे 8 जनवरी 2025 को सांयः 05.00 बजे (आईएसटी) से पहले रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सहमति (पक्ष में) या असहमति (विरोध में) दर्ज कराएं। इसके तुरंत बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई—वोटिंग को ब्लॉक कर दिया जाएगा और उक्त तिथि और समय के बाद

इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि यानी 3 दिसंबर 2024 को मीतिव या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरघारक कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालेंगे। वोटिंग

अधिकारों की गणना कट-ऑफ तिथि के अनसार सदस्य(यों) के नाम पर पंजीकत शेयरों के चकता मल्य

जाबकार का निर्माण किट—जान तांच के जनुसार संदर्भाद्या के नीन पर चजानूरा राज्य के बुकरा। सूर्य पर भी की जाएगी। एक बार जब कोई सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यदि प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो इसे ईं–वोटिंग की अंतिम तिथि यानी 8 जनवरी 2025 को पारिल माना जाएगा। वोटिंग के समेकित परिणाम अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा शुक्रवार, 10

जनवरी 2025 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे। उक्त परिणाम कंपनी की वेबसाइट यार्न

जनवरा 2025 को या उसस पहल धाषित किए जाएंग | उक्त पारणाम कपना का वबसाइट याना www.insilcoindia.com, डिपॉफिटरी याने एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर पोस्ट किए जाएंगे |

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और

शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पस्तिका www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध डाउनलोड रावरधारका क ।ल(इ –पाटा) उपयोगकता पुरस्तका www.evoimg.nsdi.com ५५ उपलब्ध डाउगलाख अनुमाग में वेंद्र सकते हैं या 022 – 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पत्लवी म्हात्रे, वरिष्ट प्रबंधक, को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

कृते इंसिल्को लिमिटेब (स्वैच्छिक परिसमापन के तहत)

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकार्र

गीतिका वार्ष्णेर

रिमोट ई—वोटिंग मंगलवार, 10 दिसंबर 2024 को प्रातः 09.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी।

iii. रिमोट ई—वोटिंग बुधवार, 8 जनवरी 2025 को सांयः 05.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी।

प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलेट आयोजित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। एमसीए सर्कुलर और सेबी सर्कुलर के अनुसार, पोस्टल बैलेट की सुचना और उसका व्याख्यात्मक विवरण उ

भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है।

https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई–वोटिंग के लिए सदस्यों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:

केवल डलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान **('रिमोट ई-वोटिंग')** करके 19 नवंबर 2024 के पोस्टल बैलट व

प्रमुख - लेखा विभाग BGSSL, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर ਜੰਟਮ - BCSSI/BED/2024-25/Accounts/10



जब कि.

एसेट्स केयर एंड रिकंस्टक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : यनिट नंबर 502. सी विंग, वन बीकेसी, प्लॉट नंबर सी - 66, जी - ब्लॉक, बांद्रा कर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई - 400051 । टेलीफोन : 022 68643101।

पंजीकृत कार्यालय : 14वीं मंजिल, इरोस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019। ई-मेल : acre.arc@acreindia.in I वेबसाइट : www.acreindia.in I CIN : U65993DL2002PLC115769

कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति हेत)

एसेटस् केअर एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन एन्टरप्राइजेस लि. (CIN : U65993DL2002PLC115769) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **बाफिन डेवलपर्स प्राइवेट** लिमिटेड. माहिरा होम्स प्राइवेट लिमिटेड. माहिरा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड. जार विलास प्राइवेट लिमिटेड (पहले नील महादेव बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), जार बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, कैनिस मेजोरिस पावर प्राइवेट लिमिटेड, माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, नीलमहादेव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिकंदर सिंह उर्फ सिकंदर सिंह छोकर, धरम सिंह उर्फ धरम सिंह छोकर, प्रिंस कुमार, इग्नासियो डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेंडेल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, वाटिका लिमिटेड, बेकन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, फेल्डन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्लॉसम प्रॉपर्टीज प्राइवेट <mark>लिमिटेड</mark> को 10.01.2024 की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता न. S000242585** की राशि **रु. 72,68,99,632.22/- (रुपए बहत्तर करोड़ अडसठ लाख निन्यानवे हजार छह सौ बत्तीस और बाईस पैसे मात्र)** और **08.01.2024** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन 04.12.2024 को संपत्ति पर **वास्तविक कब्जा** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशी रु. 72,68,99,632.22/- **(रुपए बहत्तर करोड अडसठ लाख निन्यानवे हजार छह सौ बत्तीस और बाईस पैसे मात्र) 08.01.2024** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **एसेटस् केअर एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन एन्टरप्राइजेस लि.** के आधीन होगा

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति/संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण

नीचे दी गई भिम/संपत्ति के सभी भाग या खंड, साथ में सभी वर्तमान और/या भविष्य की संरचनाएं, इमारतें, फर्नीचर, फिक्स्चर, फिटिंग, स्टैंडिंग और/या संयंत्र और मशीनरी जो स्थापित है/स्थापित की जानी हैं और/या निर्मित है/निर्मित की जानी हैं और जिसमें मेसर्स बाफिन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स माहिरा होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ब्लॉसम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मेंडेल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वाटिका लिमिटेड, मेसर्स बेकन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स फेल्डन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इग्नासियो डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के सभी वर्तमान और / या भविष्य के अधिकार , स्वामित्व और / या हित शामिल हैं :–

गांव में स्थित है,	आयताकार	किला क्षेत्रफल लिया गया क्षेत्रफल			क्षेत्रफल	सेल डीड नंबर		
तहसील, राज्य	संख्या	संख्या	(एकड़ में	और दिनांक		
		मालिक मेसर	र्म ब्लॉसम प्र	ॉपर्टीज प्राइवे	ाट लिमिटेड			
गांव हरसरू, तहसील गुड़गांव, हरियाणा	11	5/1	6	16	6	16		2875/28.08.2019
		5/2	1	4	1	4		
		10/1	4	9	0	19		
		कुल	12	9	8	19	1.12	
		मालिक मेस	र्स मेंडेल डेव	लपर्स प्राइवे	ट लिमिटेड			•
गांव हरसरू, तहसील गुड़गांव, हरियाणा	11	6/1	4	14	4	14		2876/28.08.2019
	12	1/1	5	17	5	17		
		10/2	5	17	3	11		
		कुल	16	8	14	2	1.76	
		मारि	नेक मेसर्स व	ाटिका लिमि	- ਟੇਡ			•
गांव हरसरू, तहसील गुड़गांव, हरियाणा	11	9/1	4	14	4	11	0.57	2877/28.08.2019
		मालिक मेस	र्स बेकन डेव	लपर्स प्राइवे	ट लिमिटेड			
गांव हरसरू, तहसील गुड़गांव, हरियाणा	5	20/2	5	17	5	7		
		21/1	5	17	5	17		
	6	16	7	7	2	13		
		23	4	1	0	8		
		24	9	13	4	19		
		25	8	0	8	0		
		कुल	40	15	27	4	3.40	15689/06.09.2016
मालिक मेसर्स फेल्ड	इन डेवलपर्स प्रा	इवेट लिमिटेड	1/2 शेयर	और मेसर्स	इग्नासियो डेव	ालपर्स प्राइवे	ट लिमिटेड 1	/2 शेयर
गांव हरसरू, तहसील गुड़गांव, हरियाणा	11	2	7	0	1	12		
		3	8	0	6	16		10949/20.07.201
		4	8	0	8	0		25211/28.01.2014
		कुल	23	0	16	8	2.05	
					8.8	3 95 एकड़, तहसील	गांव हरसरू गुरुग्राम, हरि	में स्थित है, प्राणा
			•		•			सही / –

दिनांक : 04.12.2024 स्थान : गुरुग्राम

कर्जदार/

(सह-कर्जदार)/

जमानती का नाम

श्रीमती लता रानी

गोयनका (कर्जदार)

तथा सुरज कुमार

(सह-कर्जदार)

निवासी टी 28/9,

डीएलएफ फेज III,

एसेट्स केयर एंड रिकंस्टक्शन एंटरप्रांडज लिमिटेड (एसीआरई-102-टस्ट के टस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हए)

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन

अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

27.12.2024 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक होने वाली ई-नीलामी के लिए सुचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सुचना दी जाती है कि प्रतिभृत लेनदार के पास बन्धककृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियाँ, जिसका **भौतिक कब्जा** प्रतिभृत

लेनदार (**आईडीबीआई बेंक लिमिटेड**) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, प्रतिभृत लेनदार (**आईडीबीआई बेंक लिमिटेड**) के लता रानी गोयनका (कर्जदार) तथा सुरज कुमार (सह-कर्जदार

से मांग सचना दिनांक 17.06.2020 के अनुसार बकाया रु. 72,69,941/- तथा वसुली यदि कोई हो, को घटाकर भावी ब्याज, लागतों तथा बैंक द्वारा उस पर किये गये व्ययों की वसुली के लिए 27.12.2024

को ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। <mark>आरक्षित मुल्य रु. 91,35,000</mark>⁄- होगा और ज**मा धरोहर राशि रु. 9,15,00**0⁄- होगी

प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री की अनुसूची

आरक्षित मल्य

जमा धरोहर राशि

(ईएमडी)

₹. 9,15,000/-

कब्जे की

तिथि

23.12.2020

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार ऊपर वर्णित अचल संपत्तियों पर कोई ऋणभार ज्ञात नहीं है, हालांकि इच्छुक बोलीदात

को अपनी बोली जमा करने से पहले ऋणभार, नीलामी में रखी गई संपत्तियों के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। वर्तमान में दो मामले डीआरटी-1, नई दिल्ली के समक्ष लंबित हैं, अर्थात आईडीबीआई बैंक बनाम कैप्री ग्लोबल एवं अन्य (टीएसए/596/2022) कैप्री बनाम आईडीबीआई (एसए 2024 का 290) और ओमकार

एआरसी बनाम आईडीबीआई (टीएसए/1024/2022)। कृपया ध्यान दें कि ई-नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ऐसा माना जाएगा और

प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी तीसरे पक्ष के दावे/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। कृपया आगे ध्यान दें, कि बिक्री बोली/निविदा दस्तावेज में उल्लिखित नियमों

कर्जदार(रों) बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) की देय राशि, आरक्षित मुल्य और जमा धरोहर राशि तथा अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

कब्जे की

(भौतिक या

प्रतिभृत आस्तियों का विवरण

तीसरी मंजिल पर कार्यालय सं

टीएफ 04 (ए), जेएमडी रीजेंट

प्लाजा, एमजी रोड, गुरुग्राम-

122002, हरियाणा, क्षेत्रफल

लगभग 840 वर्ग फीट

'किसी भी शिकायत के लिए आप श्री मोहम्मद शरिक मलिक, शिकायत निवारण अधिकारी से, फोन नंबर 011 - 66115609. ईमेल complaint@acreindia.in पर संपर्क कर सकते हैं. विस्तृत नीति संगठन के अंदर शिकायत निवारण तंत्र पर https://www.acreindia.in/compliance पर देखी जा सकती है ''।

IDBI BANK

माँग सचना की तिथि

तथा उसमें उल्लिखित

बकाया राशि

17.06.2020

रु. 72,69,941/-

निडो होम फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवेडिस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में ज्ञात) पंजीकृत कार्यालय : 5वीं मंजिल, टॉवर 3, विंग बी, कोहिनूर सिटी मॉल, कोहिनूर सिटी, किरोल रोड, कूर्ला (वेस्ट) मुंबई 400070, क्षेत्रीय कार्यालय पता : दूसरी मंजिल, 3बी, राजेंद्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली—110005

ई—नीलामी — 15 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 व वित्तीय परिसंपातिया के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्भवन तथा प्रतिभूति हित आधानयन, २००२ क अवनत आर आत्रनूति हत्व (४५००) राज्यनावर्ता, २००२ व तहत ई—नीलामी द्वारा बिक्री। एतद्वहारा सर्वसाधारण और विशेष रूप से ऋणी व गारंटर को सुचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्ति को ऋण देयों की वसूली तक दी गई तालिका में वर्णित अनुसार राशि की वसूली के लिए **''जहां है जैसी है और जो है जैसी है''** के आधार पर बेची जाएगी। उक्त संपत्ति ऋणी(याँ) सह—ऋणी(याँ) व गारंट्य(ओं) द्वारा लिए गए ऋण के लिए **मैसर्स निजे होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए, (पूर्व में एडलवेहिस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

के रूप में ज्ञात) को गिरवी है। प्रतिभूतित ऋणदाता ने नीचे वर्णित प्रतिभूतित परिसंपत्ति का भौतिक कड वसली की राशि आरक्षित मूल्य व ईएमडी **रु. 21,87,880.8 / —** (रुपए इक्कीस लाख सतासी हजार आठ सौ अस्सी व पैसे आठ केवल) **रु. 18,86,976 / — (**रुपुए अठारह् लाख कमल सिंघल 03.01.2025 को सुबह 11.00 से दोपहर 12.00 (5 मिनट के असीमित स्व विस्तार के साथ) (ऋणी) 05 10 2024 तक + उसपर पर भावी ह्याज + जमा धरोहर राशिः रु. 1,88,697 /-मीनाक्षी सिंघल _ANN0.LNDP0HL0000086669 के

(सह–ऋणी) छह सौ सतानवे केवल) लिए काननी व्यय जांच की तिथि व समय : 01.01.2025 को सुबह 11.00 से दोपहर 2.00 के बीच भौतिक कब्जा तिथि : 27.08.2024 **प्रतिभृतित परिसंपत्ति का विवरण**ः बियरिंग संपत्ति नं. 382 के सभी भाग व पार्सल, एफ /एफ, छत अधिकारों के बिना, क्षेत्र माप 45 वर्ग यार्ड मेन रोड जोर बाग, खसरा नं. 541 / 197, गांव चौकरी मुबारकाबाद त्रिनगर, दिल्ली 110035 **उक्त फ्लैट की सीमाएं निम्नानुसार है** : उत्तर : चौपाल (प्लॉट का भाग), दक्षिण : मेन रोड, पूर्व : मकान नं. 382—ए, पश्चिम : डॉ. राम किशन का मकान

नोट : 1) नीलामी बिक्री वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और मान्य ई—मेल, आईडी प्रूफ व फोटों प्रूफ, पैन कार्ड रखने वाले और डिमॉड झुफ्ट / एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी का विधिवत मुगतान करने वाले बोलीदाता ही इस "ऑनलाइन ई—नीलामी" के भाग लेने के पात्र होंगे ।

⁄ आरओजीएस / एनईएफटी द्वारा जमा के माध्यम से अपनी ईएमडी जमा करनी होग र्थी का नाम : निडो होम फाइनेंस लिमिटैड बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता सं. 65226845199, सरफेसी—नीलामी, निडो होम फाइनेंस लिमिटेड

आईएफएससी कोड : SBIN0001593 3) ईएमडी सहित ऑनलाइन बोली फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 02.01.2025 है ।

4) बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट https://sarfaesl.auctiontiger.net देखें या कृपया संपर्क करें श्री मौलिक श्रीमली फोन +91—6351896643 / 9173528727, हैल्प लाइन ई—मेल आईडी: Support@auctiontiger.net

मोबाइल नं. 9266564617 दिनांक : 10.12.2024

हस्ता. /— प्राधिकृत अधिकारी निडो होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए. (पूर्व में एडलवेड्सि हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में ज्ञात)

कब्जा सूचना

DCB BANK

nido*

जबकि, डीसीबी बैंक लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अधोल्लिखित तारीख को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें कर्जदारों (कर्जदार और सह-कर्जदार) से नीचे तालिका में वर्णित नोटिस में उल्लिखित राशि को इस पर आगे की ब्याज सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया।

कर्जदार और सह–कर्जदार द्वारा राशि अदा न कर पाने पर कर्जदार, सह–कर्जदार और सर्व सामान्य को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित नियमावली, 2002 के नियम 8 और धारा 14(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का यहाँ अधोल्लिखित तारीख को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार, सह–कर्जदार तथा सर्व साधारण को सामान्य रूप में संपत्ति (अचल संपत्ति का विवरण) से कोई भी लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन नीचे उल्लिखित संबंधित राशि के लिए डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रत्याभुत परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय के संबंध में मुक्त कराने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

सांकेतिक कब्जे की तारीख	04 दिसंबर, 2024			
मांग नोटिस दिनांकित	28.06.2024			
कर्जदार(ओं) और सह–कर्जदार (ओं) के नाम	श्रीमती सुमन सुमन पत्नी श्री देवेन्दर कुमार और श्री देवेन्दर कुमार			
ऋण खाता संख्या	DRHLSOI00562520			
कुल बकाया राशि	रु. 27,56,492/- (रुपये सत्ताईस लाख छप्पन हजार चार सौ बानवे मात्र) दिनांक 28 जून, 2024 को			
अचल संपत्ति का विवरण	एमसी सीमा गुनौर गुनौर, जिला सोनीपत के अंतर्गत वाका मौजे गद्दी केशरी स्थित प्लॉट 100 वर्ग गज जिसकी खेतत संख्या 401, खाता सं. 782, रेक्ट और किला संख्या 47 / /19(8-0) के समस्त माग व खंड। सीमाएँ- पूर्व- अन्य तोगों के घर, पश्चिम- आम सङ्क, उत्तर- श्री हरि सिंह का घर, दक्षिण- श्री ओमप्रकाश का घर (प्रत्यामूत परिसंपत्तियाँ)			
सांकेतिक कब्जे की तारीख	05 दिसंबर, 2024			
मांग नोटिस दिनांकित	16.04.2024			
कर्जदार(ओं) और सह–कर्जदार (ओं) के नाम	श्री रोबिन कुमार, श्रीमती शिमला देवी और श्री नेक सिंह			
ऋण खाता संख्या	HMHLCHK00041500			
कुल बकाया राशि	रु. 7,82,766.80/- (रुपये सात लाख बयासी हजार सात सौ छियासठ और अस्सी पैसा मात्र) दिनांक 16 अप्रैल, 2024 को			
अचल संपत्ति का विवरण	वर्ष 2009–2010 के लिए जमाबंदी और खसरा गिरद्ववारी द्वारा गाँव दसेरपुर की राजस्व संपदा में, तहसील गुहला स्थित प्लॉट/ जमीन माप 0 कनाल 19 मारला जो भूमि माप 4 केआईएस. 15 एमआईएस. का 1/5 शेयर है और जिसकी खेवत सं. 83 मिन., खतौनी नं. 126 मिन., खसरा नं. 167/2(4–15) के समस्त भाग व खंड। (प्रत्याषूत परिसंपतितर्यी)			
सांकेतिक कब्जे की तारीख	05 दिसंबर, 2024			
मांग नोटिस दिनांकित	29.06.2024			
कर्जदार(ऑ) और सह–कर्जदार (ऑ) के नाम	श्री चतर सिंह, श्रीमती मुखी देवी और श्री अमित			
ऋण खाता संख्या	DRHLPAN00607142/DRBLPAN00611262			
कुल बकाया राशि	रु. 12,98,877/- (रुपये बारह लाख अठानवे हजार आठ सौ सतहत्तर मात्र) दिनांक 28 जून, 2024 को			
अचल संपत्ति का विवरण	गाँवः बरसत तहसीलः घराँदा जिलाः करनाल स्थित जमीन खेवत सं. 145, खताँनी 207, मुख्बा सं. 105 किल्ला सं. 9/2, माप 72 वर्ग गज के समस्त भाग व खंड। सीमाएँ:— पूर्व की ओरः सुरश का प्लॉट, पश्चिम की ओरः श्याम लाल का प्लॉट, उत्तर की ओरः रास्ता, दक्षिण की ओरः घनश्याम का प्लॉट (प्रत्या <mark>भृत परिसंपत्तियाँ)</mark>			

टिनांक: 10 12 2024 स्थान : सोनीपत, कैथल, करनाल

ईएमडी तथा

संविदा दस्तावेज

जमा करने की

अन्तिम तिथि

26.12.2024 को

6.00 बजे अप.

खाते का विवरण जिसमें आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करनी है तथा आईएफएससी कोड

खाता सं. : 19134915010026, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, आईएफएससी कोड : IBKL0000191

सम्पत्ति के

निरीक्षण की तिथि

तथा समय

सम्भावित क्रेता

स्वयं देख सकते

वर्धित बोली

अधिकत

अधिकारी का ना

एवं सम्पर्क श्री अमित

π- 99905272

श्रीमती अमरज्योति

नैयर-

011-69297259

ई-नीलामी सचना

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, रिटेल रिकवरी, 8वीं मंजिल, प्लेट बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी कार्यालय परिसर,

पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023, फोन नंबर: 011-69297259

प्राधिकृत अधिकारी डीसीबी बैंक लिमिटेड

इनसिल्को लिमिटेड ादनाक 25-06-2021 के प्रभाव के तहत स्वाच् नीआइएन : L34102UP1988PLC010141

साआइएन : L34102UP1988PLC010141 पंजी: कार्यालय बी—23, सैक्टर—63, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 फोन : 0983792393, ईमेल आईडी :insito2@gmail.com, वेबसाइट :www.insilcoindia.com

इनसिक्को लिमिटेड (स्वैच्छिक परिसमापन के तहत) की <u>चौथी योगदानकर्ता बैठक का नोटिस</u>

तद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि:

दिनांकः 9 दिसंबर 2024

स्थानः पलवल, हरियाणा

गुरतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक पुरिसमापन पुक्रिया) विनियम २०१७ के विनियम ३७/२)(ए भारतीय दिवाला एव शाधन अक्षमता बांड (स्वाच्छक पारसभापन आक्रवा), ावानवन, 2017 क व्यानवन करहार के अनुसार, इनसिल्को लिमिटेड **('कंपनी')** की चौथी योगदानकर्ता बैठक **(बैठक)** शुक्रवार, 20 दिसंबर 2020 को प्रातः 11:00 बजे (आईएसटी) वैडियो कॉन्फ्रेंसिंग **('बीसी')**/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनाँ **(आएवीएम**्) की पुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें कंपनी के परिसमापन में हुई प्रगति को दर्शान रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• हित्रशारकों की सची का निपटान

- बिकी की जाने वाली और प्राप्त की जाने वाली किसी भी संपत्ति का विवरण
- हितधारकों को किया गया वितरण, डितधारकों को बिना बिकी संपत्ति का वितरण
- कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी भी महत्वपूर्ण मुकदमे में विकास,
- संहिता के भाग ॥ के अध्याय ॥। के अनुसार लेनदेन से बचने के लिए आवेदन दाखिल करना और उनमें होने
- निर्धारित समयावधि के भीतर प्रक्रिया को परा न करने के कारण और प्रक्रिया को परा करने के लिए आवश्य
- परिसमापन के लेखापरीक्षित खाते जिसमें परिसमापन प्रारंभ तिथि से परिसमापन से संबंधित प्राप्तियां औ भुगतान दिखाए गए हों

तभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि

योगदानकर्ता बैठक की सूचना उन सदस्यों / योगदानकर्ताओं को ईमेल द्वारा भेज दी गई है, जिनके ईमेल पत्ते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। योगदानकर्ता बैठक के नोटिस का इलेक्ट्रॉनिव पेषण ९ दिसंबर २०२४ को परा हो गया है।

बैठक में भाग लेने के लिए पात्र सदस्यों का निर्धारण करने की कट—ऑफ तिथि 13 दिसंबर 2024 है।

 बैठक की नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनने वाला और कट—ऑफ तिथि यानी 13 दिसंब 2024 को शेयरधारक कोई भी व्यक्ति इस सूचना से जुड़े लॉगिन निर्देशों का संदर्भ लेकर यूजर आईडी औ पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, सदस्य बैठक का नोटिस प्राप्त करने के लिए ईमेल पता, डीपी आईडी / ग्राहक आईडी

मोबाइल नंबर, शेयरधारिता की संख्या और रच-सत्यापित पैन कॉपी प्रदान करते हु! insilco2@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से अनुरोध भेज सकते हैं। योगदानकर्ताओं की बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.insilcoindia.com और बीएसई

लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। साथ ही, एनएसडीएल की वेबसाइर www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई–मेल पते व

परिवर्तन / पंजीकरण न होने के कारण नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वे बैठक का नोटिस प्राप्त करने के लि निर्पाल ने प्रतिकार के स्थापन के अपने किया है जो है , ये उठके के नाम्या आरों पर किया के स्वीत के स्वीत के स्वीत कंपनी के ई —मेल पत्ते insilico2@gmail.com पर ई—मेल भेजकर नीटिस के लिए अनुरोध कर सकते हैं ऐसे अनुरोध की प्राप्ति और सदस्य के दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद, सदस्य को नीटिस की सॉफ्ट कॉर्प प्रदान की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-मेल पते के पंजीकरण के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे भौतिक धारिता के संबंध में कंपनी / आरटीए के साथ और इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स के संबंध में डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के साथ अपने ई-मेल पते को पंजीकृत करने के लिए उचित्त प्रक्रिया का पालन करें। जिन सदस्यों ने पहले ही अपने ईमेल पते पंजीकत कर लिए हैं. उनसे अनरोध किया जाता है कि वे अपने ईमेल

स्तरम्य । नक्तरः व अपने इत्तरः पर्पाशृति कर्रा (स्तरः ६, उत्तरः अनुस्य ।वय्या आसा ६ ।वय् य अपने इ पत्ते को डिपॉजिटरी प्रतिमागियों /आरटीए /कंपनी के साथ सत्यापित करें, ताकि उनके ईमेल पत्ते इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस / दस्तावेज़ / वार्षिक रिपोर्ट की सेवा प्राप्त की जा सके । जिन सदस्यों को किसी भी कारणवश इस बैठक के संबंध में कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है, और वे भाग लेन के पात्र हैं, कंपनी के ईमेल पते insilco2@gmail.com या evoting@nsdl.com पर संपर्क करव उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड या रिमोट लॉगिन के लिए निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।

उपयोगिकता आहुंडा आर पासपेड या रिसोट लागिन के लिए निन्देश प्राप्त कर सकत है। जो सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं /प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे बैठक शुरू होने से कम से कम 2 दिन पहले अपने पंजीकृत ईमेल पत्ते से अपने नाम, डीपी आईडी और ग्राहक आईडी नंबर / फोलियो नंबर ईमेल पता, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी के ईमेल पत्ते insilco2@gmail.com पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का कंपनी द्वारा उचित रूप से उत्तर दिया जाएगा।

जो सदस्य बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना / प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीपी आईर्ड और ग्राहक आईडी नंबर / फोलियो नंबर ईमेल पता मोबाइल नंबर कंपनी के ईमेल पत जार आहम आइन विषय प्राप्ति । विषय कुरारी परिता निवास किया है कि प्रमुख परिता परिवास के क्षेत्र परिता परिवास किय insilico2@gmaill.com पर बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले यानी 18 दिसंबर 2024 को प्राप्त 11:00 बजे (आईएसटी) तक भेजकर खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। बैठक के दौरान ऐसे प्रश्न उठाए जाएंगे और कंपनी द्वारा उचित तरीके से उत्तर दिए जाएंगे। बैठक के सुचारू संचालन के लिए जंपनी प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित

vii. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुमाग में उपलब्ध सदस्यों वे लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022 – 4886 7000 और 022 – 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.con पर अनुरोध मेज सकते हैं या सुश्री सरिता मोटे, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिस्ट्रि लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबर - 400 013 से संपर्क कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शामिल होने से जड़ी शिकायतों का समाधा भी करेंगी। सदस्य कंपनी के ईमेल पते insilco2@gmail.com पर कंपनी सचिव को भी लिख सकते हैं।

इनसिल्को लिमिटेड के लि

हरण के पास किसी भी प्रकार का अधिकार दावा शीर्षक

नाम परिवर्तन

मैं, मीनल भाटिया, पत्नी भूवन भाटिया, निवासी 401, टावर 5, एम3एम द मरीना, सेक्टर 68. गुरुग्राम, हरियाणा - 122101, ने अपना नाम मीनल भाटिया से बदलकर मिन्नल भाटिया कर लिया है।

सार्वजनिक सूचना

भी को ज्ञात हो कि सुश्री शक्ति पुत्री स्वर्गीय श्री जय कृष कुर, (मालिक कहें), स्वयं को संपत्ति संख्या 138 (पहर ग्रवुर, (मार्तिक कहै), स्वयं को संपत्ति संख्या 138 (पहर्त्त गिराला) पॉकेट एरं, रोहिणी के संकटर संख्या 4, नई दिल्ली 10085 में रिखत, 31.69 वर्ग मीटर मृत्ति के मुखंड पर निर्मित लोसे आगे कवित संपत्ति कहा गात्र है) की एकमान, स्मार्ग औ वेशिष्ट मार्तिक होने का ग्रतिनिधित्त करती है, निम्मितिखत वे पार्णत से: (ए) स्वीचित और स्वीयतनामा दिनांक 05.10.2016 हतांचे संख्या 408, अतिरिक्त बही संख्या III में, खंड संख्य पह्त 183 से 194 पर दिनांक 05 10 2016 को (स्वर्ग 90, पुष्ठ 183 से 194 पर, हिनांक 05.10.2016 को (स्वामी) यह कुणा अकृत ह्वारा सुश्री शिंक के प्रक्ष में विविद्य संपादित यह कुणा अकृत ह्वारा सुश्री शिंक के प्रक्ष में विविद्य संपादित 11.69 वर्ग मीटर पूमि में समानुपातिक अविभाजित और अविभाजित हो स्वानांतरित करने के लिए सहमत हुई थी। मालिक ने उल्लंख किया है विक्रिय संपत्ति से संबंधित सभी मूल दस्तावेज गायब/खो गए हैं कि माण जना को एक विद्या सुर्वित विद्या जाता है कि अधित संपत्ति सो साम जना को एक विद्या सुर्वित विद्या जाता है कि अधित संपत्ति सं

और शर्तों के अधीन है, जिसे आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वेबसाइट यानी https://www.idbibank.in और https://www.bankeauctions.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है यह बिक्री ई-नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर होगी, संपर्कः श्री मिथलेश कुमार (ईमेल delhi@c1india.com और support@bankeauctions.com या सेल: +91-7080804466, फोन: +91-124-4302020/2021/2022/2023)। विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपय आईडीबीआई बैंक (प्रतिभृति ऋणदाता) की वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://www.idbibank.in और/या https://www.bankeauctions.com देखें। तिथि : 10.12.2024, स्थान : नई दिल्ली ह./- अधिकृत प्राधिकारी, आईडीबीआई बैंक लि.

अमित गर्ग (अधिवक्ता) मोबाइल नं. 9953764837

दिनांकः १ दिसंबर 2024 स्थानः नोएडा, उ.प्र.